



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 11 पटना, बुधवार, 24 फाल्गुन 1933 (श0)  
14 मार्च 2012 (ई0)

### विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	4-4
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	---

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

विधि विभाग

अधिसूचना

27 फरवरी 2012

एस0 ओ0 48, दिनांक 14 मार्च 2012—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा-15 के अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति से संबंधित वादों के संचालनार्थ जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक-48/विधि, दिनांक 17 जनवरी 2012 के प्रसंग में राज्य सरकार ने श्री जय प्रकाश मिश्र, अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को पद ग्रहण की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए विशेष लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त करने की कृपा की है।

2. इस नियुक्ति के फलस्वरूप पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक जिनकी कालावधि समाप्त हो गई है, की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(सं0 सी0/ए0एस0-03-34/2007/1445/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

02 मार्च 2012

सं0 6/गो-34-01/2010/939/वा0कर- श्री विश्वनाथ पासवान, वाणिज्य-कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को अपने कार्यों के अतिरिक्त नियमित पदस्थापन होने तक अंचल प्रभारी, दरभंगा अंचल दरभंगा के पद पर नियुक्त किया जाता है।

सं0 6/गो-34-01/2010/939A /वा0कर- मो0 गुलाम रसूल खातमी, वाणिज्य-कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (जलालपुर जॉच चौकी के लिये) को अगले आदेश तक के लिये प्रभारी जलालपुर जॉच चौकी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मो0 शमीम, उप-सचिव।

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

5 मार्च 2012

सं0 प्र01/वि0धारा-42/03-05-964- श्री गंगोत्री राम त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर, जिनकी सेवाएँ सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-7/स्था0-1-9-09/2005 सा0-968, दिनांक 18 जनवरी 2012 एवं पटना उच्च न्यायालय के अधिसूचना सं0-1661-XIX-18-2010 दिनांक 30 जनवरी 2012 द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-153 एवं उक्त अधिनियम की धारा-135-141 में विनिर्दिष्ट अपराधों की सुनवाई हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर के लिए गठित विशेष न्यायालय में पदस्थापन हेतु सौंपी गई है, को अगले आदेश तक तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर के लिए गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है। साथ ही इनकी सेवा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को इनके वेतनादि के भुगतान हेतु सौंपी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

## वित्त विभाग

## अधिसूचना

2 मार्च 2012

सं० अं०स्था० (11) 09/2010-199/वि०, अं०—विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 21 फरवरी 2012 की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में वित्त (अंकेक्षण) विभाग के निम्नांकित वरीय अंकेक्षण वर्ग-1 को वेतन बैंड **PB-2+ग्रेड** वेतन 4800 रु० में योगदान की तिथि से उप-लेखा नियंत्रक के पद पर नियमित प्रोन्नति देते हुए स्तम्भ-4 में दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम	वरीयता क्रम	नाम	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4
1	197	मो० हुमायु अंसारी	मुख्य मंत्री सचिवालय
2	229	श्री सुदीश प्रसाद साह	सारण प्रमंडल, छपरा
3	235	श्री शिव भूषण शर्मा	पटना प्रमंडल, पटना
4	236	श्री चन्द्र भूषण कुमार	विभागीय मुख्यालय, पटना
5	237	श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा	विभागीय मुख्यालय, पटना
6	238	श्री हरेन्द्र कुमार सिन्हा	आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ
7	240	श्री बालेश्वर प्रसाद यादव	कोशी प्रमंडल, सहरसा
8	241	श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय	आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ
9	242	श्री श्याम कुमार झा	कोशी प्रमंडल, सहरसा
10	243	श्री अशोक कुमार गुप्ता	दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा
11	247	श्री हरि शंकर प्रसाद सिन्हा	तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फपुर
12	249	श्री अमर नाथ झा नं०-2	दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा
13	255	मो० रेहान खॉ	भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
14	257	श्री सैयद इमदाद इमाम	आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ
15	265	श्री सफायत हुसैन अंसारी	सारण प्रमंडल, छपरा
16	319	श्री विश्वनाथ प्रसाद	पटना प्रमंडल, पटना
17	366	श्री लक्ष्मण रजक	मगध प्रमंडल, गया
18	385	श्री शिवनन्दन प्रसाद	आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ
19	386	श्री अशोक कुमार दास	आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ

2. सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार के पद पर पदस्थापित किए जाने वाले पदाधिकारी वित्त विभाग के कोषागार प्रशाखा में योगदान देंगे। उनके विभाग के आवंटन का आदेश वित्त विभाग के कोषागार प्रशाखा से अलग से निर्गत किया जायेगा।

3. उपर्युक्त में से एम०ए०सी०पी० के तहत ग्रेड-पे 5400 धारक पदाधिकारी इस प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि से विनियमित समझे जायेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
संजीवन सिन्हा,  
सरकार के विशेष सचिव—सह—  
मुख्य लेखा नियंत्रक, बिहार, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 52—571+100-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

## भाग-2

### बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना (शुद्धि-पत्र)  
22 फरवरी 2012

सं० ई 3-एस-101/2000 (अंश)- 2012 (S)—विभागीय अधिसूचना संख्या 8695 (एस), दिनांक 03 जुलाई 2008 द्वारा निर्गत सहायक अभियंता की वरीयता सूची में श्री सूर्यकान्त, कार्यपालक अभियंता, तत्कालीन सहायक अभियंता का वरीयता क्रमांक-317 निर्धारित किया गया था। उक्त निर्धारित वरीयता में उनका मेधा क्रमांक-154 के आधार पर वरीयता क्रमांक-316 अवध किशोर, मेधा क्रमांक-147 के ठीक नीचे एवं वरीयता क्रमांक-318 श्री अनिल कुमार सिन्हा, मेधा क्रमांक-156 के ठीक उपर वरीयता क्रमांक-317 अंकित था।

विभागीय अधिसूचना संख्या 11299 (एस), दिनांक 02 अगस्त 2010 द्वारा निर्गत सिविल लिस्ट में श्री सूर्यकान्त, कार्यपालक अभियंता का मेधा क्रमांक टंकण भूलवश 158 अंकित हो गया एवं तदनुसार गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 277, दिनांक 03 फरवरी 2009 से प्राप्त परामर्श के आलोक में उनका सिविल लिस्ट क्रमांक 448 अंकित किया गया जिसके विरुद्ध श्री सूर्यकान्त द्वारा कोई अभ्यावेदन/आपत्ति नहीं दी गई। गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 13780, दिनांक 19 सितम्बर 2011 द्वारा उनके पत्रांक 277 दिनांक 03 फरवरी 2009 के प्रभाव से रोक लगाने के कारण पारस्परिक स्थानांतरित कार्यपालक अभियंताओं के सिविल लिस्ट क्रमांक में विभागीय अधिसूचना संख्या 14199 (एस), दिनांक 26 दिसम्बर 2011 द्वारा आवश्यक संशोधन किया गया जिसमें श्री सूर्यकान्त का सिविल लिस्ट क्रमांक-252A निर्धारित किया गया।

श्री सूर्यकान्त की नियुक्ति वर्ष 1987 में हुई है एवं उनका मेधा क्रमांक-154 है।

अतः विभागीय अधिसूचना संख्या 14199 (एस), दिनांक 26 दिसम्बर 2011 के क्रमांक-7 पर अंकित पदाधिकारी, श्री सूर्यकान्त का सिविल लिस्ट क्रमांक संशोधित करते हुए सिविल लिस्ट क्रमांक-251 श्री अवध किशोर, मेधा क्रमांक-147 के ठीक नीचे एवं क्रमांक-252 श्री अनिल कुमार सिन्हा, मेधा क्रमांक-156 के ठीक उपर 251A निर्धारित किया जाता है एवं क्रमांक-15 पर अंकित पदाधिकारी श्री उमेश सिंह का सिविल लिस्ट क्रमांक जो टंकण भूलवश 258A अंकित हो गया है को 285A संशोधित किया जाता है।

इस अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट [www.rcd.bih.nic.in](http://www.rcd.bih.nic.in) पर भी देखा जा सकता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अमरेन्द्र भूषण सिंह,  
उप-सचिव प्र०को०।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 52-571+100-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>